



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2536]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 28, 2012/पौष 7, 1934

No. 2536]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 28, 2012/PAUSA 7, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2012

**का.आ. 3053(अ).**—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1904(अ), तारीख 21 अगस्त, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के दाहोद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 के 144.000 कि.मी. से 179.300 कि.मी. (अहमदाबाद-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 10 सितम्बर, 2012 को “दिव्य भास्कर” और “डी.एन.ए.” दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

## अनुसूची

गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 के 144.000 कि.मी. से 179.300 कि.मी. तक (अहमदाबाद-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	ब्लॉक / सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	दाहोद	1)देवगढ़ बारीया	1) भटवादा	304	निजी	कृषि	0 - 09 - 90	कोली कालुभाई मैजीभाई कोली भोदुभाई गमाभाई कोली मंगलीबेन गमाभाई कोली लालीबेन गमाभाई कोली जमखुबेन गमाभाई कोली नानीबेन गमाभाई कोली धीराभाई मनसुखभाई कोली बलुभाई मनसुखभाई कोली दामाभाई मनसुखभाई कोली नवलसीगभाई रुपसीगभाई कोली दलाभाई रुपसीगभाई कोली लीलाबेन रुपसीगभाई कोली रमीलाबेन रुपसीगभाई कोली बचीबेन रुपसीगभाई कोली मंगलीबेन भुराभाई की वीधवा कोली रेशमबेन भुराभाई कोली वेस्तीबेन भुराभाई कोली शनीबेन भुराभाई कोली शुभाभाई हडीयाभाई कोली गंगाबेन हडीयाभाई कोली बुधलीबेन हडीयाभाई कोली भुरीबेन हडीयाभाई की वीधवा कोली शकरीबेन भुराभाई की पुत्री कोली शनीबेन भुराभाई की पुत्री
			2) असयादी	195/1	निजी	कृषि	0 - 12 - 56	पटेल नारसीग गेंगाभाई पटेल बाई बेनीबेन गेंगाभाई की वीधवा
				195/2/P/4	निजी	कृषि	0 - 02 - 00	पटेल सरदारभाई मानसीगभाई पटेल गोपालभाई मानसीगभाई पटेल बाबुभाई मानसीगभाई पटेल प्रतापभाई मानसीगभाई पटेल अमरसीग मानसीगभाई पटेल बलवंतभाई मानसीगभाई पटेल शनीबेन मानसीगभाई की पुत्री पटेल जमखुबेन मानसीगभाई की पुत्री पटेल मजीबेन मानसीगभाई की वीधवा पटेल नारसीग गेंगाभाई
				188/1	निजी	कृषि	0 - 20 - 68	पटेल नवलसीगभाई मनसुखभाई पटेल हीराभाई मनसुखभाई पटेल जुमलीबेन मनसुखभाई पटेल मंगलीबेन मनसुखभाई

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3) पिपलोड	459/P/4	निजी	कृषि	0 - 20 - 00	डायरा लीमजीभाई लखाभाई डायरा रयलाभाई मनसुखभाई डायरा भेमभाई मनसुखभाई डायरा मगनभाई मनसुखभाई
				109/P/3	निजी	कृषि	0 - 00 - 50	पटेल नवलाभाई छगनभाई पटेल मंगलाभाई महासुखभाई पटेल रेखाबेन भगलाभाई पटेल चंपाबेन भगलाभाई कुकाभाई की वीधवा पटेल कवलीबेन भगलाभाई पटेल भयलाभाई कानजीभाई पटेल चंघीबेन कानजीभाई कालुभाई की वीधवा पटेल मगनभाई गलाभाई पटेल गोपालभाई शनाभाई पटेल कलजीभाई शोभाभाई पटेल भीखाभाई शोभाभाई पटेल केसरीबेन प्रतापभाई पटेल रवेसींगभाई प्रतापभाई पटेल रयजीभाई प्रतापभाई पटेल शनीबेन प्रतापभाई पटेल चीमनभाई सुरसींगभाई पटेल मोहनभाई नानाभाई
			4) पंछेला	190	निजी	कृषि	0 - 12 - 93	पटेल बीजलीबेन सोनीयाभाई की वीधवा पटेल रामलीबेन परवतभाई की वीधवा पटेल मसुरीबेन परवतभाई की वीधवा पटेल वेजलीबेन शोरमाभाई की वीधवा पटेल रणजीतसीह परवतभाई पटेल लक्ष्मनभाई परवतभाई पटेल रवेसीह परवतभाई पटेल सवीताबेन परवतभाई की पुत्री पटेल रामसीहभाई मुलाभाई पटेल भवानभाई मुलाभाई पटेल रमीलाबेन मुलाभाई पटेल मंजुलाबेन मुलाभाई पटेल ललीताबेन मुलाभाई पटेल वेजलीबेन मुलाभाई की पुत्री पटेल बलीबेन मुलाभाई की पुत्री पटेल गुलाबभाई भेमाभाई पटेल छत्रसीह भेमाभाई पटेल साकरीबेन भेमाभाई पटेल पारीबेन भेमाभाई
				195/P/2	निजी	कृषि	0 - 00 - 40	डामोर वनराजभाई सोमजीभाई डामोर कीलराजभाई सोमजीभाई
				196/P/4	निजी	कृषि	0 - 18 - 05	पटेल बैयकाभाई वीरसींगभाई पटेल मजलीबेन वीरसींगभाई

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				246/1/P/11	निजी	कृषि	0 - 41 - 58	बामनीया रतनसीगभाई जेसीगभाई बामनीया बुधाभाई जेसीगभाई बामनीया धीराभाई जेसीगभाई बामनीया परवतभाई जेसीगभाई
				246/1/P/5	निजी	कृषि	0 - 10 - 26	बामनीया रतनसीगभाई जेसीगभाई बामनीया परवतभाई जेसीगभाई

[फा. सं. भारराप्रा/गोधरा/रा.रा-59/देवगढ़ बारीया/2012]

माया प्रकाश, उप-सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2012

**S.O. 3053(E).**— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number **S.O 1904 (E), dated 21<sup>st</sup> AUGUST 2012**, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the public purpose of building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 59 on the stretch of land from **Km 144.000 to Km 179.300 (Ahmedabad - Gujarat /MP Border Section)** in District Dahod in the State of Gujarat;

And whereas the substance of the said notification has been published in "DIVYA BHASKAR" and "DNA" both dated 10<sup>th</sup> SEPTEMBER 2012 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections have been received from any person by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

## SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 144.000 to Km 179.300 ( Ahmedabad - Gujarat/MP Border ) on the National Highway No. 59 in the State of Gujarat.

Serial number	Name of the district	Name of taluka	Name of village	Block / Survey number	Type of land	Nature of land	Area in hectare.	Name of land owner/ Interested Person
1	2	3	4	5	6	7	8.0000	9
1	Dahod	Devgard Baria	1) Bhatwada	304	Private	Agriculture	0.0990	Koli Kalubhai Bhajibhai Koli Bhodubhai Gamabhai Koli Mangaliben Gamabhai Koli Laliben Gamabhai Koli Jamkhuben Gamabhai Koli Naniben Gamabhai Koli Dhirabhai Mansukhbhai Koli Balubhai Mansukhbhai Koli Damabhai Mansukhbhai Koli Navalsingbhai Rupsingbhai Koli Dalabhai Rupsingbhai Koli Lilaben Rupsingbhai Koli Ramilaben Rupsingbhai Koli Bachiben Rupsingbhai Koli Mangliben Bhurabhai's Widow Koli Reshamben Bhurabhai Koli Vestiben Bhurabhai Koli Shaniben Bhurabhai Koli Shubashbhai Hadiyabhai Koli Gangaben Hadiyabhai Koli Budhaliben Hadiyabhai Koli Bhuriben Hadiyabhai's Widow Koli Shakariben D/O Bhurabhai Koli Shaniben D/O Bhurabhai
			2) Asayadi	195/1	Private	Agriculture	0.1256	Patel Narsingbhai Gemabhai Patel Bai Beniben Gemabhai's widow
				195/2/P/4	Private	Agriculture	0.0200	Patel Sardarbhai Mansingbhai Patel Gopalbhai Mansingbhai Patel Babubhai Mansingbhai Patel Pratapbhai Mansingbhai Patel Amarsing Mansingbhai Patel Balvantbhai Mansingbhai Patel Saniben D/O Mansingbhai Patel Zamaku D/O Mansingbhai Patel Manjiben Mansingbhai's widow Patel Narsingbhai Gemabhai

4841 95712-2

1	2	3	4	5	6	7	8.0000	9
				188/1	Private	Agriculture	0.2068	Patel Navalsingbhai Mansukhbhai Patel Hirabhai Mansukhbhai Patel Jumliben Mansukhbhai Patel Mangaliben Mansukhbhai
			3) Piplod	459/P/4	Private	Agriculture	0.2000	Dayara Limjibhai Lakhbhai Dayara Rayalabhai Mansukhbhai Dayara Bhernabhai Mansukhbhai Dayara Maganbhai Mansukhbhai
				109/P/3	Private	Agriculture	0.0050	Patel Navalabhai Chhaganbhai Patel Mangalabhai Mahasukhbhai Patel Rekhaben Bhagalabhai Patel Champaben Bhagalabhai Kukabhai's widow Patel Kavaliben Bhagalabhai Patel Bhailabhai Kanjibhai Patel Chanchiben Kanjibhai Kalubhai's widow Patel Maganbhai Galabhai Patel Gopalbhai Sanabhai Patel Kalajibhai Somabhai Patel Bhikhabhai Somabhai Patel Kesriben Pratapbhai Patel Ravesingbhai Pratapbhai Patel Rayajibhai Pratapbhai Patel Shaniben Pratapbhai Patel Chhimanbhai Sursingbhai Patel Mohanbhai Nanabhai
			4) Panchela	190	Private	Agriculture	0.1293	Patel Bijaliben Soniyabhai's widow Patel Ramliben Parvatbhai's widow Patel Masuriben Parvatbhai's widow Patel Vejaliben Shornabhai's widow Patel Ranjitsinh Parvatbhai Patel Lakshmanbhai Parvatbhai Patel Ravesinh Parvatbhai Patel Savitaben D/O Parvatbhai Patel Ramsinhbhai Mulabhai Patel Bhavanbhai Mulabhai Patel Ramilaben Mulabhai Patel Manjulaben Mulabhai Patel Lalitaben Mulabhai Patel Vejaliben D/O Mulabhai Patel Baliben D/O Mulabhai Patel Gulabbhai Bhernabhai Patel Pariben Bhernabhai Patel Chhatrasinh Bhernabhai Patel Sakariben Bhernabhai

1	2	3	4	5	6	7	8.0000	9
				195/P/2	Private	Agriculture	0.0040	Damor Vanrajibhai Somjibhai Damor Kilrajibhai Somjibhai
				196/P/4	Private	Agriculture	0.1805	Patel Bhaikabhai Virsingbhai Patel Majaliben Virsingbhai
				246/1/P/11	Private	Agriculture	0.4158	Bamaniya Ratansinhbhai Jesingbhai Bamaniya Budhabhai Jesingbhai Bamaniya Dhirabhai Jesingbhai Bamaniya Parvatbhai Jesingbhai
				246/1/P/5	Private	Agriculture	0.1026	Bamaniya Ratansinhbhai Jesingbhai Bamaniya Parvatbhai Jesingbhai

[F. No. NHAI/Godhra/NH-59/Devgadh Baria/2012]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.